

नियमित कचरा उठाना

*77. डॉ. अच्युतानन्द--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महानार नगर पंचायत के क्षेत्र में सड़क पर कचरों का अम्बर जमा रहने के कारण आम नागरिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;
- (2) क्या यह बात सही है कि महानार नगर पंचायत में कुड़ा उठाने के संसाधनों एवं सफाईकर्मियों की नियुक्ति के बाद भी समय पर कचरे का उठाव नहीं होता है;
- (3) यदि उपरावत खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महानार नगर पंचायत की नियमित कचरा उठाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बीज जाँच केन्द्र की स्थापना

*78. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत पाइने वाले जिलों में एक भी बीज जाँच केन्द्र स्थापित नहीं रहने के कारण धान का कटोरा कहा जाने वाला क्षेत्र उन्नत किस्म का धान उत्पादन करने से वर्चित है;

- (2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शाहाबाद क्षेत्र के आरा जिला में एक बीज जाँच केन्द्र की स्थापना कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फसल बीमा राशि उपलब्ध कराना

*79. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के बहापुर, केसट, ईटाही तथा भोजपुर जिला के आरा, संदेश, सहार, शाहपुर सहित अनेक प्रखंडों में वर्ष 2010-11 में सरकार द्वारा घोषित सुखाह राहत फसल बीमा राशि अभीतक नहीं दी जा सकी है, जिसके कारण किसानों में घोर आङ्कोश व्याप्त है;

- (2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे तमाम प्रखंडों को चिन्हित कर किसानों को फसल बीमा की राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

कार्य पूर्ण कराना

*80. श्री रामदेव महतो--क्या मंत्री, पश्च. एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के शिवनगर घाट पर 2006-07 में सम-विकास योजना से बनने वाले पश्च. चिकित्सालय का अस्सी प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है;

- (2) यदि उक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*81. श्री रामदेव महतो--वया मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत राजनगर प्रखण्ड के लक्ष्मी नारायण गुप्ता, रामसखी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय की जमीन पर विद्यालय परिसर में अवैध कब्जा कर घर बना लिया गया है, जिसके कारण छात्राओं के पठन-पाठन पर बुरा असर पड़ रहा है;

(2) यदि उक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*82. डॉ अच्युतानन्द--वया मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार नगर पंचायत थोत्र अन्तर्गत महनार बाजार से नोनिया टोली जाने वाली सड़क के किनारे नाला का निर्माण नहीं होने से जल-जमाव रहता है, जिससे इस क्षेत्र के नागरिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस सड़क के किनारे नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता बैंक खोलना

*83. श्री रमेश झूँघिदेव--वया मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत कुमारखण्ड प्रखण्ड एवं सिंहेश्वर प्रखण्ड में सहकारिता बैंक नहीं होने के कारण किसानों को सहकारिता ऋण मिलने में कठिनाई होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में कबतक सहकारिता बैंक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 24 फरवरी, 2011 (ई०)।

गिरोश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।